



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1946 (श०)

(सं० पटना 911) पटना, शुक्रवार, 13 सितम्बर 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना

19 जुलाई 2024

सं० स० सु० (लीड एजेंसी) विविध-05-246/2024-491—दिनांक 24.08.2018 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक जिसके मद संख्या-3 के रूप में सड़क सुरक्षा कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित लीड एजेंसी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत पदों के क्र० सं०-6 एवं क्र० सं०-11 पर अंकित पदों के कार्य अनुभव एवं योग्यता में निम्नवत् संशोधन किये गये हैं:-

क्र.	पद का नाम	मानदेय	योग्यता		अधिकतम उम्र सीमा	कार्य संबंधी विवरण
			शैक्षणिक	व्यवसायिक		
6	लेखा पदाधिकारी	रु० 65,000/- प्रतिमाह	अभ्यर्थी के पास अनिवार्य रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंसी/ICWA की डिग्री हो।	अभ्यर्थी के पास चार्टर्ड एकाउंटेंसी / ICWA की डिग्री के उपरांत लेखा/ट्रेजरी/वित्तीय संबंधी कार्यों का तीन (3) वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none">संपूर्ण वित्तीय मामलों का सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणविभाग के क्रय संबंधी गतिविधियों की जानकारी।
11	रोकड़पाल	रु० 30,000/- प्रतिमाह	बाहरी अभ्यर्थियों हेतु <ul style="list-style-type: none">वाणिज्य में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पूर्णकालिक स्तानक की डिग्री के साथ MS-Excel एवं Tally की अच्छी जानकारी।रोकड़ प्रबंधन में न्यूनतम पांच (5) वर्षों का कार्य अनुभव।		बाहरी अभ्यर्थियों हेतु 55 वर्ष	<ul style="list-style-type: none">भुगतान स्वीकार करना। सही दर/मूल्य, मात्र को सूनिश्चित करना।रिफंड एवं

क्र.	पद का नाम	मानदेय	योग्यता		अधिकतम उम्र सीमा	कार्य संबंधी विवरण
			शैक्षणिक	व्यवसायिक		
			सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु बिहार सरकार के किसी भी कार्यालय/संगठन से सेवानिवृत्त लिपिक/रोकड़पाल/सहायक, जिनके पास रोकड़ एवं कैशबुक संबंधित कार्यों का अनुभव।		सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु 62 वर्ष	विनिमय को क्रियान्वित करना, शिकायतों का निपटारा करना।

नोट:—

- जहां सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी/कर्मियों का नियोजन किया जाएगा, उनका मानदेय बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के अनुसार तय किया जायेगा। यह मानदेय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से कम होगा।
- आरक्षण का पालन बिहार सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति के अनुरूप होगा।

2. बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अंतर्गत गठित 'लीड एजेन्सी' के संविदा के आधार पर नियोजित पदाधिकारी/कर्मियों की योग्यता, कार्य अनुभव, मानदेय एवं स्थापना संबंधी कार्यों का निर्धारण करने के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् सक्षम प्राधिकार होगी।

आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 911+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>